

	<p>स्पष्टीकरण --</p> <p>(क) समुचित उत्पाद शुल्क से तत्समय प्रवृत्त किसी सुसंगत ब्रूट की अधिसूचना के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की चौथी अनुसूची के अधीन उदग्रहणीय उत्पाद शुल्क, वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 112 के अधीन उदग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, वित्त विधेयक, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 के अधीन उदग्रहणीय विशेष अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क और वित्त विधेयक, 2021 (2021 का 15) के खंड 116 के अधीन उदग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (कृषि अवसंरचना और विकास उपकर) जो अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, अभिप्रेत है;</p> <p>(ख) समुचित केन्द्रीय कर, विक्रय कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर से केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), संबद्ध राज्य के राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, (14 का 2017) 2017 और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, (13 का 2017) 2017 के अधीन उद्ग्रहणीय केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर अभिप्रेत होगा।</p>	
--	--	--

2. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2021 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 334/2/2021-टीआरयू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. 28/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 13 मई, 2002 संख्यांक सा.का.नि. 361(अ) तारीख 13 मई, 2002 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 20/2017-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 3 जुलाई, 2017 द्वारा संख्यांक सा.का.नि. 823(अ) तारीख 3 जुलाई, 2017 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2021

No. 04/2021-Central Excise

G.S.R. 86(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), read with sub-section (3) of section 147 of the Finance Act, 2002 (20 of 2002), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 28/2002-Central Excise, dated the 13th May, 2002, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 361(E), dated the 13th May, 2002, namely:-

1. In the said notification, in the Table,
 - (i) against S. No. 3, 4 and 5, in column (2), in Explanation 1, for the words, brackets and figures the following words, brackets and figures shall be substituted, namely: -

“appropriate duties of excise shall mean the duties of excise as leviable under the Fourth Schedule to the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the additional duty of excise leviable under section 112 of the Finance Act, 2018 (13 of 2018), the special additional excise duty leviable under section 147 of the Finance Act, 2002 (20 of 2002) and the additional duty of excise (Agriculture Infrastructure and

Development Cess) leviable under clause 116 of the Finance Bill, 2021 (15 of 2021), which, by virtue of the declaration made in the said Finance Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931) has the force of law, read with any relevant exemption notification for the time being in force”;

- (ii) after S. No. 4 and the entries relating thereto, the following S. Nos and entries relating thereto shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)
“4A.	<p>20% ethanol blended petrol that is a blend, -</p> <p>(a) consisting, by volume, of 80% motor spirit (commonly known as petrol), on which the appropriate duties of excise have been paid and, of 20% ethanol on which the appropriate Central tax, State tax, Union territory tax or Integrated tax, as the case may be, have been paid; and</p> <p>(b) conforming to the Bureau of Indian Standards specification 17021.</p> <p><i>Explanation .-</i></p> <p>(a) appropriate duties of excise shall mean the duties of excise as leviable under the Fourth Schedule to the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the additional duty of excise leviable under section 112 of the Finance Act, 2018 (13 of 2018), the special additional excise duty leviable under section 147 of the Finance Act, 2002 (20 of 2002) and the additional duty of excise (Agriculture Infrastructure and Development Cess) leviable under clause 116 of the Finance Bill, 2021 (15 of 2021), which, by virtue of the declaration made in the said Finance Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931) has the force of law, read with any relevant exemption notification for the time being in force;</p> <p>(b) appropriate Central tax, State tax, Union territory tax and Integrated tax shall mean the Central tax, State tax, Union territory tax and Integrated tax as leviable under the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the State Goods and Services Tax Act of the State concerned, the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017) and the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017).</p>	Nil
4B.	<p>15% methanol blended petrol that is a blend, -</p> <p>(a) consisting of motor spirit (commonly known as petrol), on which the appropriate duties of excise have been paid and of methanol and co-solvents on which the appropriate Central tax, State tax, Union territory tax or Integrated tax, as the case may be, have been paid; and</p> <p>(b) conforming to Bureau of Indian Standards specification 17076.</p> <p><i>Explanation .-</i></p> <p>(a) appropriate duties of excise shall mean the duties of excise as leviable under the Fourth Schedule to the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the additional duty of</p>	Nil”

	<p>excise leviable under section 112 of the Finance Act, 2018 (13 of 2018), the special additional excise duty leviable under section 147 of the Finance Act, 2002 (20 of 2002) and the additional duty of excise (Agriculture Infrastructure and Development Cess) leviable under clause 116 of the Finance Bill, 2021 (15 of 2021), which, by virtue of the declaration made in the said Finance Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931) has the force of law, read with any relevant exemption notification for the time being in force;</p> <p>(b) appropriate Central tax, State tax, Union territory tax and Integrated tax shall mean the central tax, State tax, Union territory tax and integrated tax as leviable under the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the State Goods and Services Tax Act of the State concerned, the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017) and the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017).</p>	
--	---	--

2. This notification shall come into force on the 2nd February, 2021.

[F.No.334/2/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note : The principal notification No. 28/2002-Central Excise, dated the 13th May, 2002 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 361(E), dated the 13th May, 2002 and last amended by notification No. 20/2017-Central Excise, dated the 3rd July, 2017 *vide* number G.S.R. 823(E), dated the 3rd July, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2021

सं. 05/2021-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 87(अ).— केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 112 के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर, कि लोकहित में यह करना आवश्यक है, 15% मेथेनॉल संमिश्रित पेट्रोल, जो ऐसा सम्मिश्र है

(क) मोटर स्प्रीट (सामान्यतः पेट्रोल के रूप में ज्ञात) जिस पर समुचित उत्पाद-शुल्क का संदाय किया गया है, और मेथेनॉल और सह-विलायक, जिसपर, यथास्थिति, समुचित केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर या एकीकृत कर का संदाय किया गया है, के परिणाम से मिलकर बनेगा; और

(ख) भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देशन 17076 के अनुरूप है,

को वित्त अधिनियम, 2018 की पूर्वोक्त धारा के अधीन उस पर उद्गहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (सड़क और अवसंरचना उपकर) की संपूर्ण निधि से छूट प्रदान करती है।

स्पष्टीकरण- इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ-

(क) समुचित उत्पाद शुल्क से तत्समय प्रवृत्त किसी सुसंगत छूट की अधिसूचना के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की चौथी अनुसूची के अधीन उद्गहणीय उत्पाद शुल्क, वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 112 के अधीन उद्गहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, वित्त विधेयक, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 के अधीन उद्गहणीय विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और वित्त विधेयक, 2021 (2021 का 15) के खंड 116 के अधीन उद्गहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (कृषि अवसंरचना और विकास उपकर) जो अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, अभिप्रेत है; और